



HPL Electric & Power Limited

CIN : L74899DL1992PLC048945

Corporate Office: 76-B, Phase-IV, Sector-57, HSIIDC Industrial Estate,
Kundli-131028, Sonapat, Haryana INDIA.

Tel.: +91-130-350 3958, 350 3437 | E-mail: hpl@hplindia.com

Website: www.hplindia.com

16th May, 2024

The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.
“Exchange Plaza”, C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex, Bandra €,
Mumbai – 400 051
Symbol: HPL

BSE Limited
25th Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, Phiroze
Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 540136

Subject: Publication of Newspaper Advertisement

Dear Sir

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of the Newspaper Advertisement (Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024) published today in Business Standard (English and Hindi Edition).

This is for your kind information and record please.

Thanking You,

For HPL Electric & Power Limited

Vivek Kumar
Company Secretary

Encl: As Above

Leaning in: Isha Ambani beyond Reliance Retail

SUVEEN SHINHA
New Delhi, 15 May

Isha Ambani means business. Not only when she is doing business — she leads Reliance Retail — but also when she is not. The latter was unmistakable on Wednesday, during her eight-minute 49-second video address on the occasion of "Girls in Information and Communications Technology (ICT) Day India 2024".

The Girls in ICT Day is hosted by the Department of Telecommunications, Government of India, the International Telecommunications Union (South Asia), the Innovation Centre, Delhi, and other agencies of the United Nations.

In the address, Ambani, who, along with her two brothers, is at the core of Reliance Industries' next generation of leaders and is a non-executive director on its board, exhorted young women to opt for STEM — science, technology, engineering and mathematics — and opt for technology as a career.

"A male-dominated STEM/ICT landscape, where women are under-represented, will rob India of its opportunity to rule the roost," Ambani said.

Kavil Ramachandran, who is with the Thomas Schmidheiny Centre for Family Enterprise, Indian School of Business, says this is a good beginning. "We hope this is a new phase for Isha Ambani. We hope there will be many more. We need industry leaders to be influencers," he says.

Listening to Ambani, one is reminded of Sheryl Sandberg's Lean In, a book that women are to embrace their ambitions and went on to spawn a movement.

"We must rise to the occasion, we must exert ourselves, and we must excel. Otherwise, we run the risk of becoming irrelevant," Ambani said. She also said, "So, by denying leadership roles to women, we



Isha Ambani made news last year when Reliance Retail revealed the JiBook, a 4G-enabled laptop, priced at ₹16,499. Her father, Mukesh Ambani, made mobile data a mass item and smartphones ubiquitous

are denying ourselves the chance to realise our full potential."

Her address comes at a time when several marriage names among India's business families are in the throes of succession — not all of it smooth. Adding to the uneven path are strains of acrimony and, in some cases, lack of a strong desire in the next generation to do the hard grind of running a business. In the latter category, there are some daughters of business families.

Isha Ambani made news last year when Reliance Retail revealed the JiBook, a 4G-enabled laptop, priced at ₹16,499. Her father, Mukesh, made mobile data a mass

item and smartphones ubiquitous. Reliance Retail has also been in the headlines for raising funds from global investors and touching impressive valuations.

"It is indeed an unfortunate scenario because women are no less suited to be leaders and change-makers than men. And yet a woman's climb to the top is invariably a lot more difficult than a man's rise. I personally believe that as leaders, women have an edge over men. Women have empathy and that automatically makes them better leaders. A woman leader, as she climbs up the ladder, will inevitably carry the team with her," Ambani said in her video address.

This strikes a note beyond the rigmarole of running a business.

'86% executives using AI to boost revenue'

SHIVANI SHINDE
Mumbai, 15 May

As many as 86 per cent of senior business executives have deployed artificial intelligence (AI) to enhance revenue streams or create new ones, said a report by Tata Consultancy Services (TCS) on Wednesday.

As many as 69 per cent of businesses are more focused on using AI for innovation and increasing revenue than on improving productivity and optimising cost, said the "TCS AI for Business Study". Executives are positive about the impact of AI, with 57 per cent reporting "excitement" or "optimism". As many as 45 per cent of respondents in the study

expected up to half the staffers will need to use GenAI tools to do their job in three years' time and another 41 per cent think even a greater number will do so. 65 per cent believe AI will improve capabilities, enabling people to focus on activities that require creativity and strategic thinking.

"2023 was a year of exuberance, with every enterprise experimenting with AI/GenAI use cases. We are now entering an era of wide-and-deep enterprise AI adoption. Enterprises, however, are realising that the path to production for AI solutions is not easy, and that building an AI-mature enterprise is a marathon, not a sprint," said Harrick Vin, chief technology officer at TCS.

AWS launches GenAI service Bedrock in APAC (Mumbai) region

Amazon Web Services (AWS), the cloud computing arm of Amazon.com, has announced the general availability of Amazon Bedrock, its fully-managed GenAI service, in its Asia Pacific (Mumbai) region. It was globally launched through select regions in 2023. The move will support customers across the country, including public sector organisations and firms in regulated industries, to innovate with GenAI. **BS REPORTER**

DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED **Dixon**

Regd. Office: B-14 & 15, Phase-II, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201305
CIN: L32101UP1993PLC066581, Website: www.dixoninfo.com, Ph. No.: 0120 4737200

Extract Of Audited Financial Results For The Quarter and Year Ended March 31, 2024



Figure above depicts consolidated result Q4, FY23-24 in comparison with Q4, FY22-23

Extract of Audited Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter & Year Ended March 31, 2024

S. No.	Particulars	Standalone		Consolidated			
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended		
		31-Mar-24	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23		
1	Total Income from Operations	140,020	167,143	644,869	467,465	306,727	1,771,346
2	Net Profit for the period before tax (before exceptional and extraordinary items)	5,736	9,013	24,698	12,951	11,209	49,383
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and extraordinary items)	5,736	9,013	24,698	12,951	11,209	49,383
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	4,344	6,429	18,566	9,730	8,062	37,492
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	4,482	6,387	18,667	9,853	7,941	37,578
6	Equity Share Capital (Face value Rs. 2 each)	1,196	1,191	1,196	1,196	1,191	1,196
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			138,234			168,289
8	Earnings per share (face value of Rs. 2/- per share) (not annualised)	7.28	10.82	31.12	16.31	13.57	62.84
	Diluted earnings per share (in rupees)	7.24	10.74	30.93	16.21	13.47	62.46

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Company's website (www.dixoninfo.com) and on Stock Exchanges website (www.bseindia.com and www.nseindia.com)
2. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on May 15, 2024.

On behalf of the Board
For Dixon Technologies (India) Limited
Sd/-
Atul B. Lall
Vice Chairman Cum Managing Director
(DIN: 00781436)

Place: Noida
Date: 15/May/2024

NEWS ANALYSIS

are denying ourselves the chance to realise our full potential."

Her address comes at a time when several marriage names among India's business families are in the throes of succession — not all of it smooth. Adding to the uneven path are strains of acrimony and, in some cases, lack of a strong desire in the next generation to do the hard grind of running a business. In the latter category, there are some daughters of business families.

Isha Ambani made news last year when Reliance Retail revealed the JiBook, a 4G-enabled laptop, priced at ₹16,499. Her father, Mukesh, made mobile data a mass

item and smartphones ubiquitous. Reliance Retail has also been in the headlines for raising funds from global investors and touching impressive valuations.

"It is indeed an unfortunate scenario because women are no less suited to be leaders and change-makers than men. And yet a woman's climb to the top is invariably a lot more difficult than a man's rise. I personally believe that as leaders, women have an edge over men. Women have empathy and that automatically makes them better leaders. A woman leader, as she climbs up the ladder, will inevitably carry the team with her," Ambani said in her video address.

This strikes a note beyond the rigmarole of running a business.

[TECH DIGEST]

APPLE BLOCKED \$1.8 BN FRAUDULENT APP STORE TRANSACTIONS IN 2023

Apple has published a report stating it prevented over \$7 billion in potentially fraudulent transactions on the App Store from 2020 to 2023 — \$1.8 billion of that in 2023 alone. It also blocked over 14 million stolen credit cards from transacting on its App Store between 2020 and 2023.

WHATSAPP'S CUSTOMISABLE COLOUR THEMES FOR CHAT BUBBLES ON IOS

WhatsApp may soon introduce new customisation features on Apple's iOS, allowing users to customise the main colour palette of the app and choose the chat bubble colour from a predefined set of colours.

HPL ELECTRIC & POWER LIMITED

CIN: L74899DL1992PLC048845
Regd. Office: 1/20, Asaf Ali Road, New Delhi 110 002
Ph.: +91-11-23234411, Fax: +91-11-23232639
E-mail: hpl@hplindia.com, Website: www.hplindia.com

Revenue
16%

PAT
44%

EPS
45%

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(Rs. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended		
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2023	
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	
1	Total Income from Operations	42,406.28	36,556.96	36,275.30	1,46,085.81	1,26,220.87
2	Net Profit/(Loss) for the Period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,139.92	1,897.46	1,748.51	6,809.94	4,668.78
3	Net Profit/(Loss) for the Period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,139.92	1,897.46	1,748.51	6,809.94	4,668.78
4	Net Profit/(Loss) for the Period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,371.74	1,194.66	1,126.76	4,362.54	3,024.89
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax))	1,147.74	1,188.10	1,158.04	4,120.09	3,006.77
6	Equity share capital	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	72,922.22
8	Earnings Per Share (face value of Rs. 10 each)	2.13	1.86	1.75	6.78	4.69
	1. Basic (Rs.)	2.13	1.86	1.75	6.78	4.69
	2. Diluted (Rs.)	2.13	1.86	1.75	6.78	4.69

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(Rs. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended		
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2023	
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	
1	Total Income from Operations	41,330.44	35,758.94	35,219.59	1,42,091.65	1,21,486.69
2	Profit before tax	2,063.42	1,830.92	1,653.17	6,446.97	4,275.38
3	Profit after tax	1,319.00	1,154.29	1,069.70	4,125.98	2,775.73

Notes:-
1) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 15, 2024. Audit under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 has been carried out by the statutory auditors of the Company. The auditors have expressed an unmodified report on the above results.
2) The above is an extract of the detailed format of quarterly and year ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and year ended financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website (www.hplindia.com)
3) Subject to the approval of the shareholders in the forthcoming Annual General Meeting of the company, the Board of Directors have recommended a final dividend of Rs. 1.00 (10%) per equity share of Rs. 10 each for the financial year upto March 31, 2024 and the unaudited published year-to-date figures up to December 31, 2023, being the date of the end of the third quarter of the financial year which were subjected to limited review.
4) Previous quarterly year ended figures have been regrouped/restated wherever necessary. For and on behalf of the Board of HPL Electric & Power Limited
Place: Gurugram Date: 15.05.2024
Rishi Seth Managing Director DIN: 00203469

Smart Metering | Switchgear | LED Lighting | Wire & Cables | Solar

Behind our remarkable TRANSFORMATION are our people

Mukand Ltd. has truly transformed. From a company that was deep in debt to one that's reduced its debt substantially through strategic interventions. Today, we're a company that's firmly on a profitable growth trajectory. We have substantially increased our high revenue stainless steel production. We have introduced progressive policies that encourage a healthy work life balance, making it one of the best workplaces in the manufacturing sector. Our continued focus and emphasis on achieving superior quality products, while harnessing the experience of our 1,400 plus strong workforce, and our commitment to the environment and community make us a truly formidable company that India can showcase.

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024.

Rs. in Crore

Particulars	Standalone Financial Results				Consolidated Financial Results					
	Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended			
	31-Mar-24	31-Dec-23	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-24	31-Dec-23	31-Mar-23	31-Mar-23		
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited		
Total income from operations	1,257.38	1,188.40	1,346.17	5,217.53	5,618.36	1,239.16	1,176.68	1,312.35	5,174.81	5,576.60
Net Profit for the period before Tax	44.69	23.53	133.61	128.17	194.27	43.05	21.91	122.84	126.83	172.27
Tax Expense (Charge) / Credit	(14.27)	(2.20)	0.73	(24.50)	(8.79)	(13.96)	(2.55)	2.56	(24.13)	(0.49)
Profit for the period/year	30.42	21.33	134.34	103.67	185.48	29.09	19.36	125.40	102.70	171.78
Other Comprehensive Income (net)	(9.81)	(0.07)	4.49	(9.93)	5.74	(6.36)	(0.07)	(0.85)	(6.48)	0.44
Total Comprehensive Income	20.61	21.26	138.83	93.74	191.22	22.73	19.29	124.55	96.22	172.22
Paid-up Equity Share Capital				144.51	144.51				144.51	144.51
Reserves (excluding Revaluation Reserves)				801.81	736.97				776.59	709.27
Earning per share of Rs. 10/- each Basic and diluted earnings per share (in Rs.)										
Basic and Diluted EPS (in Rs)	2.11	1.48	9.30	7.17	12.84	2.01	1.34	8.68	7.11	11.89

Notes:
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 15, 2024.
2. The Board of Directors have recommended a dividend of Rs. 2 per equity share (20%), subject to approval of shareholders.
3. On 6th February, 2024, the Board of Directors of the Company had considered and approved a Scheme of Arrangement ("Scheme") for transfer of the Stainless Steel Cold Finished Bars and Wires Business from Mukand Sumi Metal Processing Limited ("MSMPL"), a wholly-owned subsidiary to the Company by way of demerger ("Demerger"). Since, MSMPL is WOS of the Company, no additional shares shall be issued pursuant to the Demerger.
4. The Company jointly with MSMPL had filed the Scheme before the National Company Law Tribunal, Mumbai Bench ("Hon'ble NCLT"). In compliance with the NCLT Order, notices have been issued to various Regulatory Authorities. The Scheme shall be subject to sanctions and/or approvals, inter alia, by Regulatory Authorities and Hon'ble NCLT. Pending approval of the Scheme, no effect of the Demerger has been considered in the current financial statements.
5. The figures of last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the current financial year, which were subjected to Limited Review.
6. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited results for the Quarter/Year ended 31st March 2024 is available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website (www.mukand.com).
7. Figures in respect of the previous period have been regrouped / recast wherever necessary in case of the above results.

By Order of the Board of Directors
For Mukand Ltd.,
Niraj Bajaj
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date: May 15, 2024

Regd. Office: Bajaj Bhawan, Jammalal Bajaj Marg, 226, Nariman Point, Mumbai - 400 021 | Tel. No.: 022 621 21 8666
Email ID: investors@mukand.com | Website: www.mukand.com CIN: L99959MH537PLC002726

